



EPACK DURABLE LIMITED

(Formerly Known as EPACK Durable Private Limited)

Regd. Off.: 61-B, Udyog Vihar, Surajpur, Kasna Road, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar U.P. 201306

Corporate Off.: TR-901, AltF 142 Noida, 9th Floor, Plot Number 21 and 21A, Sector 142, Noida-201304, U.P.

CIN: L74999UP2019PLC116048,

Ph. No.: 0120-4522467, Email ID: info_ed@epack.in, Website: www.epackdurable.com

To
Listing Department
BSE Limited ("BSE")
Department of Corporate Services
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai – 400 001
Scrip Code: 544095
ISIN: INE0G5901015

To
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited ("NSE")
Exchange Plaza, C-1, Block G
Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai – 400 051
Symbol: EPACK
ISIN: INE0G5901015

Dear Sir/Ma'am,

Sub: Newspaper advertisement of extracts of the Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Financial year ended as on March 31, 2024

Pursuant to Regulation 47(3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith newspaper advertisement of extracts of Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Financial Year ended as on March 31, 2024.

A copy of same shall also be posted on the website of the Company.

We request you to kindly take this on your record and oblige.

For **EPACK Durable Limited**

Esha Gupta
Company Secretary and Compliance Officer

Date: May 29, 2024

Place: Noida

AMAZON, GOOGLE, APPLE FACING CCI PROBES

Big Tech opposes India's EU-like antitrust proposal

ADITYA KALRA & ARPAN CHATURVEDI
New Delhi, May 28

A US LOBBY group representing tech giants Google, Amazon and Apple has asked India to rethink its proposed EU-like competition law, arguing regulations against data use and preferential treatment of partners could raise user costs, a letter shows.

Citing increasing market power of a few big digital companies in India, a government panel in February proposed imposing obligations on them under a new antitrust law which will complement existing regulations whose enforcement the panel said is "time-consuming". India's "Digital Competition Bill" is on the lines of EU's landmark Digital Markets Act 2022. It will apply to big firms, including those with a global turnover of over \$30 billion and whose digital services have at least 10 million users locally, bringing some of the world's biggest tech firms under its ambit.

It proposes to prohibit companies from exploiting non-public data of its users and pro-

AT A GLANCE

■ India's drafting new competition law to target big digital firms

■ Top US lobby group, on May 15, wrote to corporate affairs ministry

■ It urges India to rethink, fears business hit

■ Many Indian startups say law will create level playing field



■ Digital Competition Bill is on the lines of EU's landmark Digital Markets Act 2022

■ CCI in 2022 fined Google \$161 mn

■ Amazon is facing an antitrust investigation for favouring select sellers on its India website

moting their own services over rivals, and also abolish restrictions on downloading of third-party apps.

Companies deploy these strategies to launch new product features and boost security for users, and curbing them will hit their plans, the US-India Business Council (USIBC), part of the US Chamber of Com-

merce, said in a May 15 letter to corporate affairs ministry, which is working on the law.

The draft law is "much further in scope" than the EU's, says the letter, which has not been made public but was seen by Reuters. "Targeted companies are likely to reduce investment in India, pass on increased prices for digital services, and reduce

the range of services," it says.

The USIBC, which has asked India to reconsider the planned law, did not respond to Reuters queries, and neither did the corporate affairs ministry, Apple, Amazon or Google.

With a population of 1.4 billion people and a growing affluent class, India is a lucrative market for big tech companies. Apple CEO Tim Cook said this month the company posted a "revenue record" in India during the March quarter, when its overall global revenue declined 4%.

The Indian panel says the new law is needed as a few large digital enterprises "wield immense control over the market". As in the EU, it is recommending a penalty of up to 10% of a company's annual global turnover for violations.

The Competition Commission of India (CCI) has for years been investigating big tech firms. The CCI in 2022 fined Google \$161 million, ordering it to stop restricting users from removing its pre-installed apps and allow downloads without using its app store. —REUTERS

On course for a healthier nation!



ANIL RAJPUT

INDIA IS TODAY at the cusp of tremendous all-round development. While its stellar economic performance is clearly visible and making a splash across the world, it is very encouraging to note that the trends in the area of health also look quite promising. The government's visionary and people-centric policies like Ayushman Bharat Yojana and Fit India are delivering tremendous thrust to its overall vision of creating a healthier country. Over the last 10 years, we have been witnessing a robust all-round implementation of unique and far-reaching ideas envisioned by the government, which has also scaled up its efforts to deliver health services in a nation that is home to over 1.4 billion people.

Various reports on India's efforts to address and mitigate health issues have been released and have provided valuable insights and flagged concerns about certain aspects of this subject. One such report, titled 'Health of the Nation 2024' an initiative by Apollo Group, has made some interesting and significant observations. This report sensitises people about the need for preemptive health check-ups, so that there is early detection of diseases.

As much as we may want for diseases to go away, the fact is that there are also some serious problems—there are health trends and certain malaises that afflict large portion of our population and these require our unflinching attention. If we look at the incidence of Lung Cancer in India, the decade



between 1982 and 1992 witnessed its sharpest rise. Over the years, its prevalence has been 20 times higher among women when compared to men—with their exposure to cooking fumes in the rural areas being a leading contributor and hazard. Realising this, the government has consistently intensified its efforts to provide cooking gas to all. I believe that in the years ahead, such well-thought-out steps will without doubt lower the incidence of this deadly disease among the women.

In addition, another lethal threat to the young and old, male and female alike—that is always present in varying degrees and cannot be avoided in our busy lives, is stress. It leads to a vast number of spiraling problems and creates/aggravates many ailments. The best example is its impact on the two most common and dangerous NCDs—Hypertension and Diabetes. The report states that chronic stress alone, increases the incidence of hypertension and diabetes by 1.3 to 2 times, with women again being more susceptible. Therefore, for a nation that has the highest number of diabetics and cardiac events, the role of stress and its reduction requires

our unflinching attention. All this becomes critical as this major factor is impacting people at a younger age in a country which is today the youngest nation by demography in the world. In my view the role of stress busters cannot be overemphasised. One such powerful stress buster is Yoga, which is irrefutably backed by science and over the past 10 years propagated like never before with increasing emphasis on its relevance in today's world. In the words of our Prime Minister Narendra Modi, who is credited with mainstreaming this ancient practice, "Yoga creates a healthy and powerful society where the collective energy is much more".

India has around 101 million diabetics, additionally, one in three have pre-diabetes

the percentage of population over 45 years of age afflicted by diabetes at around 36%, and at the same time the population under 45 has been constant at 12%—this is a very important finding, considering that a huge part of our population is under 45 years of age, and I'm sure that going ahead this percentage will start to come down owing to the consistent, well planned and executed policies of the government.

One area that can contribute significantly in supplementing the government's efforts in controlling many NCDs is generating awareness about the critical need for testing and monitoring. ASSOCHAM's CSR Council through its 'Illness to Wellness' initiative has been doing this for over a decade. It has organised over 475 camps, 125 interactive sessions and eight conferences—featuring over 450 health experts, engaging on a plethora of topics, along with unabated emphasis on dissemination of information, focussed and expert views, opinions and recommendations. The campaign continued its uninterrupted run, and despite serious limitations organised over 95 webinars in the covid period, it has also doubled down on its large-scale activities and organised two back-to-back awareness summits that witnessed the participation of top medical professionals from varied fields.

I believe that it is the mass access to affordable testing that holds the keys as it will lessen the health burden faced by the policymakers, as well as ensure much greater contribution from the citizens towards nation building in the years to come. Clearly, a healthier India will also be a stronger India!

(Anil Rajput is chairperson, ASSOCHAM National CSR Council & president, Corporate Affairs, ITC. The views expressed are personal)

Blusmart looks to raise \$300 mn

RAGINI SAXENA & SUVASHREE GHOSH
May 28

BLUSMART, INDIA'S BIGGEST electric cab operator, wants to raise more than \$300 million in three years to add thousands of cars to its fleet in its push to take on the likes of Uber Technologies in the fast-growing market.

The company will increase its Indian fleet of electric vehicles—supplied by Tata Motors, BYD, SAIC Motor, MG Motor and Stellantis NV's Citroën—to 13,000 by March from 7,500 currently, Punit Goyal, co-founder of the BP Ventures-backed startup, said in an interview. In three years, it aims to have 25,000 cars, he said.

Part of the funding it raises will go toward the company's expansion beyond Delhi and the southern Indian city of Bengaluru. BluSmart will

PUNIT GOYAL, CO-FOUNDER, BLUSMART

WE DON'T WANT TO GO TO SMALL CITIES BECAUSE THAT'S NOT WHERE THE REVENUE COMES FROM



launch in Dubai next month with about 100 Audi EVs, and plans to run 300 Audi and Tesla vehicles there by December, according to Goyal.

"We don't want to go to small cities because that's not where the revenue comes from," said Goyal.

"Cheap rides, cheap quality, cheap service and cheap pricing are not our forte." —BLOOMBERG

Project finance norms: Infra NBFCs likely to see limited impact

FE BUREAU
Mumbai, May 28

THE RESERVE BANK of India's (RBI) draft project finance norms may have a limited impact on infrastructure-focused non-bank lenders, CareEdge Ratings said.

The rating agency said if the draft guidelines are implemented in the existing form, the tier-I capital of infrastructure-focused NBFCs are expected to be reduced by up to 120 basis points (bps). "Considering the current healthy capitalisation position of NBFC-IFCs, the reduction in tier-I is not expected to have any material impact on future disbursements or approval processes," the report said.

Further, the rating agency sees no impact on the return on equity or reported net worth of these lenders, as the difference

in provisioning requirements between the RBI rules and IndAS accounting standards must be adjusted through the impairment reserves and will not be routed through net profits or net losses of the entity.

On May 3, RBI released a draft framework for lenders who undertake project finance. Under these guidelines, RBI has increased the provisioning requirement on standard assets. It has proposed categorising projects into design, construction and implementation phases. During the construction phase of a project, the lender is required to maintain a provision of 5% on all existing and new exposures.

This will be implemented in a phased manner with 2% by March 31, 2025, 3.5% by March 31, 2026, and 5% by March 31, 2027, for all existing and new exposures.

Aditya Birla Housing eyes 25-30% growth

GEETA NAIR
Pune, May 28

ADITYA BIRLA HOUSING Finance (ABHFL) is targeting a 25-30% growth in Assets Under Management (AUM) for FY25, Pankaj Gadgil, managing director of ABHFL and head of Digital Platforms and Payments Strategy at Aditya Birla Capital, said.

ABHFL's lending book value was ₹18,420 crore as of March 31.

Gadgil said they had grown 33% year-on-year (y-o-y) in FY24 compared to the 15% industry growth. There was a lot of headroom for them to grow their housing finance business, he said.

ABHFL is a full-stack mortgage player offering prime and affordable home loans, loans against property, and construction finance for developers. Approximately 60% of the business comes from housing,

and 40% from the non-housing segment.

The housing finance company was looking to double the book in three years, Gadgil said. The growth would be largely driven by digital platforms and the Aditya Birla Group (ABG) ecosystem. The omni-channel digital platform, Aditya Birla Capital Digital (ABCD), launched on April 16, offers lending, insurance, mutual funds, and payments. It has already seen

100,000 registrations, with a goal of reaching 30 million customers in three years.

According to Gadgil, the housing finance firm had 12,000 channel partners, but the ABG ecosystem allowed them to work with 200,000 partners to cross-sell and upsell. ABHFL had 135 branches, while the group had 1,440 branches offering financial services, which would drive business for them.

FROM THE FRONT PAGE

DPIIT draft: Ease of doing business 2.0 on the anvil

IT ALSO INCLUDES Regulatory Impact Assessment or cost-benefit analysis of regulations, the sources added.

The services where regulations are being relooked at include land allotment, building plan approval, factory licence and its renewal, environment clearance, water and power connection, and no objection certificate for fire.

The framework deals with CoR in areas like time cost of regulations, intermediary cost (professional fee), delay cost and statutory cost (fee payable to government).

Areas impacting time costs are long and complex application forms, coordination with multiple departments, unclear information and compliance requirements, inefficient query management system. Within intermediary costs include uneven frequency of compliance requirements by different departments, maintaining multiple registers and independent certification or audit



requirements.

Costs from delays come through lack of coordination among departments, queries at the last moment and ineffective single window systems. Statutory costs include charges prescribed in regulation that are payable to the government such as administrative charges, licence, permit, registration, accreditation and fees, levies, and mandatory insurance premiums.

The first round of ease of doing business reforms had led to a jump in India's global rankings on the Doing Business Report of the World Bank to 63rd position from 142nd position

in 2014. These reforms have brought down the time taken to start a business through simplification of procedures related to applications, renewals, inspections and filing records.

Legal provisions were also rationalised by repealing, amending or omission of redundant laws, digitisation of government processes by creating online interfaces and decriminalisation of minor, technical or procedural defaults. The second round of reforms seek to go deeper and deal with everyday issues faced by the businesses that add to their costs and competitiveness.

Adani group plans foray into digital payments, e-comm

IF FINALISED, THE services will be available through Adani's consumer app Adani One, which was launched in December 2022, the report added.

The group has been making efforts to recover from a January 2023 report by US short-seller Hindenburg that

triggered a sell-off in the group's listed shares.

The report accused the group of stock manipulation and improper use of tax havens—allegations that the group has refuted.

A court-appointed panel said in May 2023 that markets watchdog Sebi "drew a

blank" on the case, while the Supreme Court said in January this year that no further scrutiny was needed.

So far, four of the seven group companies have surpassed pre-Hindenburg report levels, including Adani Enterprises' intraday recovery on Friday.



EPACK Durable Limited

(Formerly Known as EPACK Durable Private Limited and EPACK Durables Solutions Private Limited)

Regd. Office: 61-B, Udyog Vihar, Surajpur, Kasna Road, Greater Noida, Gautam Budh Nagar U.P. 201306
CIN: L74999UP2019PLC116048, Website:- www.epackdurable.com, Email ID: info_ed@epack.in

Extract of the Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2024

S. no.	Particulars	Standalone Results					Consolidated Results				
		Quarter ended		Year ended			Quarter ended		Year ended		
		March 31, 2024	December 31, 2023	March 31, 2023	March 31, 2024	March 31, 2023	March 31, 2024	December 31, 2023	March 31, 2023	March 31, 2024	March 31, 2023
		Refer note 2(a)	Unaudited	Refer note 2(b)	Audited	Audited	Refer note 2(a)	Unaudited	Refer note 2(b)	Audited	Audited
1	Total Income from Operations	52,569.96	27,905.51	63,908.06	1,41,955.82	1,53,883.15	52,569.96	27,905.51	63,908.06	1,41,955.82	1,53,883.15
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	3,912.37	701.02	4,783.24	5,067.22	4,640.83	3,856.07	666.86	4,748.13	4,919.97	4,559.68
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,912.37	701.02	4,628.29	5,067.22	4,485.88	3,856.07	666.86	4,593.18	4,919.97	4,404.73
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,824.82	514.80	3,361.21	3,647.53	3,257.97	2,782.69	489.24	3,334.93	3,537.34	3,197.24
5	Total comprehensive income for the period [(Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,825.60	508.44	3,355.79	3,626.19	3,236.29	2,783.58	483.12	3,334.97	3,516.29	3,175.32
6	Equity share capital (Face value Rs 10/- per share)	9,579.87	7,840.74	5,208.90	9,579.87	5,208.90	9,579.87	7,840.74	5,208.90	9,579.87	5,208.90
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	79,811.17	24,331.50	-	-	-	79,640.30	24,270.53
8	Earnings per share in Rs (Face value Rs 10/- per share) (Not annualised for the quarter)										
	a) Basic	3.13	0.66	4.95	4.48	4.80	3.08	0.62	4.91	4.35	4.71
	b) Diluted	3.13	0.66	4.49	4.48	4.72	3.08	0.62	4.45	4.35	4.64

Notes:

- The above standalone and consolidated financial results of EPACK Durable Limited (the 'Company' / the 'Holding Company'), and its associate for the quarter and year ended March 31, 2024 have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time and accounting principles generally accepted in India and in compliance with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure requirements) Regulations, 2015, as amended. The above standalone and consolidated financial results for the quarter and year ended March 31, 2024 were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on May 28, 2024.
- a) The standalone and consolidated financial results relating to quarter ended March 31, 2024 are the balancing figures between the audited figures in respect of full financial year ended March 31, 2024 and published figures for nine-months ended December 31, 2023 which were subjected to limited review.
- b) The standalone and consolidated financial results relating to the corresponding quarter ended March 31, 2023 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year ended March 31, 2023 and year to date figures upto nine-months ended December 31, 2022 which have been approved by the Board of Directors of the Company but have not been subjected to limited review by the Statutory Auditors.
- The above is an extract of the detailed format of quarter and year ended March 31, 2024 financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure requirements). The full format of the same are available on the Stock Exchanges website www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the company's website www.epackdurable.com

For EPACK Durable Limited
Ajay DD Singhania
(Managing Director and Chief Executive Officer)

Place: Noida
Date: May 28, 2024

मुंबई : औद्योगिक परिसर में आग, छह लोग झुलसे

मुंबई, 28 मई (भाषा)।

मुंबई के धारावी झुग्गी-बस्ती इलाके में स्थित एक औद्योगिक परिसर में मंगलवार को आग लगने से कम से कम छह लोग झुलस गए। स्थानीय निकाय अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक, घायलों को आनन-फानन में पास के सायन अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। नगर निकाय के एक अधिकारी ने बताया कि धारावी इलाके के काला किला में स्थित अशोक मिल परिसर में तीन मजिला और चार मजिला इमारतों में तड़के करीब पौने चार बजे आग लग गई। पुलिस के एक अधिकारी ने

बताया कि 22 से 28 वर्ष की आयु के छह लोग आग में झुलस गये, जिनमें से दो लोग 30 से 50 फीसदी और दो अन्य लोग आठ से 10 फीसदी तक आग में झुलस गए।

अधिकारी ने बताया कि एक अन्य युवक के हाथ पर मामूली चोट आई थी, जिसे उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। निगम के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि आग दोनों इमारतों में रखे लकड़ी के सामान, कपड़ों, फर्नीचर और उपकरणों में लगी। अधिकारी ने बताया कि दमकल की कम से कम पांच गाड़ियां और पानी के टैंकर सहित दमकल के अन्य वाहनों को घटनास्थल पर भेजा गया और चार से ज्यादा घंटों में आग पर काबू पा लिया गया।

कार से मारी टक्कर, आरोपी हिरासत में

पुणे (महाराष्ट्र), 28 मई (भाषा)।

महाराष्ट्र के पुणे जिले में पुलिस ने एक व्यक्ति को सोमवार देर रात अपनी कार से टक्कर मारकर एक शख्स की हत्या करने के

प्रयास के आरोप में हिरासत में ले लिया।

अधिकारियों ने बताया कि यह घटना देर रात करीब एक बजे पिंपरी इलाके में हुई जब आरोपी को पता चला कि पीड़ित उसकी प्रेमिका से बात कर रहा है।

राजकोट अग्निकांड : संचालन कंपनी का एक और साझेदार गिरफ्तार

अहमदाबाद, 28 मई (एजेंसी)।

गुजरात पुलिस ने राजकोट स्थित 'टीआरपी गेम जॉन' के एक और साझेदार को गिरफ्तार किया है जहां पिछले सप्ताह आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई थी। बनावसाकांटा के पुलिस अधीक्षक अक्षयराज मकवाना ने बताया कि धवल कॉर्पोरेशन के मालिक धवल टक्कर को पड़ोसी राजस्थान के आबू रोड से गिरफ्तार कर लिया गया है। वह रसवे इंटरप्राइज के पांच साझेदारों के साथ मिलकर टीआरपी गेम जॉन चलाता था। इसके साथ ही शनिवार को हुई इस घटना के संबंध में अभी तक चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

मकवाना ने बताया, 'टक्कर को गत रात राजकोट और बनावसाकांटा पुलिस द्वारा चलाए गए एक संयुक्त अभियान में आबू रोड से गिरफ्तार किया गया।' इससे पहले पुलिस ने रसवे इंटरप्राइज में साझेदार युवराज सिंह सोलंकी और राहुल राठौड़ तथा गेम जॉन के प्रबंधक नितिन जैन को गिरफ्तार किया था। उन्हें सोमवार को राजकोट की एक अदालत ने 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने मामले में आग लगने की इस घटना के संबंध में छह लोगों - टक्कर, सोलंकी, राठौड़ और रसवे इंटरप्राइज के साझेदारों अशोक सिंह जडेजा, किरंट सिंह जडेजा और प्रकाशचंद हिरन के खिलाफ प्रथमिकी दर्ज की है।

कांग्रेस ने गुजरात के राजकोट के एक 'गेम जॉन' में आग लगने की घटना को लेकर मंगलवार को दावा किया कि राज्य सरकार के स्तर पर कोई गंभीरता और चिंता नहीं है। साथ ही पार्टी ने निचले स्तर के अधिकारियों को निलंबित करने की बजाय वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में इस घटना की जांच हो तथा पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए।

डंपर ने मजदूरों को कुचला, एक की मौत

ठाणे, 28 मई (भाषा)।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में समृद्धि एक्सप्रेसवे निर्माण स्थल पर एक डंपर (एक प्रकार का ट्रक) ने तीन मजदूरों को कुचल दिया, जिससे एक की मौत हो गई और दो अन्य मजदूर घायल हो गए। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक, जिले के कसारा इलाके में वाशला पुल के समीर रविवार रात करीब साढ़े 11 बजे यह दुर्घटना हुई। कसारा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि निर्माण स्थल पर काम कर रहे मजदूर सड़क किनारे सो रहे थे तभी वहां से गुजर रहे डंपर ने उन्हें कुचल दिया। अधिकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान अशोक जाधव (50) के रूप में हुई है।

यूनिवर्स बैंक Union Bank of India

आरिफ बसुली शाखा, डी-26/28, नॉर्ट प्लेस, नई दिल्ली-110001, (कार्यस्थल) : ए-35, प्रथम तल, नॉर्ट प्लेस, नई दिल्ली-110001

शुद्धिपत्र

दिनांक 28.05.2024 को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन कब्जा सूचना के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि कर्जदार : मेतसं तुक्कर के खाते की सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 24-05-2024 को ले लिया है के मामले में संशोधित एरिया (क्षेत्रफल लगभग 320 वर्ग फुट) के स्थान पर (क्षेत्रफल लगभग 3403 वर्ग फुट) बड़ा जगह। शेष पूर्वानुसार रहेगी।

प्राधिकृत अधिकारी, यूनिवर्स बैंक ऑफ इंडिया

यूनिवर्स फोटो इमेजिंग लिमिटेड										
सीआईएन: L22222UP2011PLC103611										
पंजी. कार्यालय: 19वीं के.एम., हापुड-बुलन्दशहर रोड, पी.ओ.- गुलावती, बुलन्दशहर (उ.प्र.)-204508 IN										
कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नंबर 87, इस्टीम्यूनाल एरिया, सेक्टर-32, मुहुराम, हरियाणा - 122001										
31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही और समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम										
समेकित					स्टैंडअलोन					
समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष			समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष			
31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	
लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	
959.00	733.00	817.00	3,245.00	4,322.00	959.00	733.00	817.00	3,245.00	4,322.00	
633.00	1,615.00	892.00	4,027.00	3,997.00	633.00	1,615.00	892.00	4,027.00	3,997.00	
(4,253.00)	(6,545.00)	(3,274.00)	(18,697.00)	(3,950.00)	अवधि के लिए कुल शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद) और गैर-निर्मित ब्याज और सहायों से लाभ का हिस्सा, मूल इक्विटी धारकों पर आरोप है।	633.00	1,615.00	892.00	4,027.00	3,997.00
(4,348.00)	(6,947.00)	(3,489.00)	(19,635.00)	(4,446.00)	अवधि के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद) और गैर-निर्मित ब्याज और सहायों से लाभ का हिस्सा, मूल इक्विटी धारकों पर आरोप है।	538.00	1,213.00	677.00	3,089.00	3,501.00
(3,811.00)	(6,592.00)	(3,708.00)	(18,440.00)	62.00	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) को मूल इक्विटी धारकों पर आरोप है।	540.00	1,214.00	676.00	3,092.00	3,500.00
1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) को मूल इक्विटी धारकों पर आरोप है।	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00
(39.72)	(63.45)	(31.87)	8,5264.00	1,03,704.00	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) को मूल इक्विटी धारकों पर आरोप है।	4.92	11.09	6.18	28.22	31.98
			(179.37)	(40.62)						

नोट्स:

- लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम का उपरोक्त विवरण निदेशक मंडल द्वारा 28.05.2024 को आयोजित अपनी बैठक में रिकॉर्ड पर लिया गया था। वैधानिक लेखापरीक्षकों ने इन परिणामों पर एक अंशशोधित लेखापरीक्षा राय व्यक्त की है।
- ये स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के सहपठित कंपनी (मासिक लेखा मानक) नियमावली, 2015 के नियम 3 और उससे प्राप्तिक संशोधन नियमों के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (इंड-एक्स) के अनुसार तैयार किए गए हैं।
- विदेशी सहायों कंपनी जेपीएफ नीदरलैंड बीवी से प्राप्य लाभों 17427.59 लाख रुपये को वर्ष 2021-22 के दौरान आय में घोषित किया गया था और मान्यता दी गई थी और यूरोप में ऊर्जा लागत में वृद्धि, बिजली और उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन लागत में वृद्धि, ओवरस्टॉक में वृद्धि और यूरोप में बल रहे संकट के कारण मांग में हुई गिरावट के कारण नकदी प्रवाह की कमी के कारण लंबित है। प्रबंधन की राय में, राशि सुरक्षित और वसूली योग्य है और खाता बहिर्गम में कोई प्राधान्य करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण राशि प्राप्त होने में देरी हो रही है।
- 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के आंकड़ों पर वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित आंकड़ों और वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही तक प्रकाशित वर्ष-दर-तारीख आंकड़ों के बीच संतुलन के आंकड़ों हैं।
- कॉन्कर्टेनेट एडवेंस्ट एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड (विघटित कंपनी) और कॉन्कर्टेनेट पब्लिक फिन्स एडवेंस्ट प्राइवेट लिमिटेड (परिणामी कंपनी नंबर-1), कॉन्कर्टेनेट इमेजिंग एडवेंस्ट प्राइवेट लिमिटेड (परिणामी कंपनी नंबर-2), कॉन्कर्टेनेट मेडल एडवेंस्ट प्राइवेट लिमिटेड (विघटित कंपनी) और कॉन्कर्टेनेट पावर एडवेंस्ट प्राइवेट लिमिटेड (परिणामी कंपनी नंबर-4) माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायधिकरण, कोलकाता के दिनांक 22 सितंबर, 2023 के आदेश द्वारा लीकृत, कंपनी के इक्विटी शेयर कॉन्कर्टेनेट के पास हैं एडवेंस्ट एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड (विघटित कंपनी) को कॉन्कर्टेनेट इमेजिंग एडवेंस्ट प्राइवेट लिमिटेड (परिणामी कंपनी नंबर-2) में स्थानांतरित कर दिया गया है। तदनुसार, कॉन्कर्टेनेट इमेजिंग एडवेंस्ट प्राइवेट लिमिटेड (परिणामी कंपनी नंबर-2) इमेजिंग कंपनी बन गई है।
- विघटित तिमाहियों/अवधि के आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, पुनः समायोजित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के साथ-साथ 2023-24 के लिए विदेशी सहायों कंपनी जेपीएफ नीदरलैंड बीवी की वित्तीय विवरणों/वित्तीय परिणामों की तारीख तक पूरा नहीं हो पाया। इन वित्तीय विवरणों/वित्तीय परिणामों को प्रबंधन द्वारा प्रमाणित विदेशी सहायों कंपनी के अलेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर समेकित किया गया है और यह कुल समेकित राशि और लाभ/हानि का 20 प्रतिशत से अधिक है। लेखापरीक्षा अंतिम चरण में है और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के बीच कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होने चाहिए।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते यूनिवर्स फोटो इमेजिंग लिमिटेड
हरशा /—
शैलेश सिन्हा
(प्रबंध निदेशक)
सीआईएन: 08649186

स्थान: मुहुराम
दिनांक: 28.05.2024

Scooters India Limited							
(A Government of India Enterprise), CIN: L25111UP197260I003599							
1st Floor of 3/481, Vikalp Khand Gomti Nagar Lucknow UP 226010, India Telephone No. 0522-3178490, E-mail: cscscootersindia@gmail.com, Website: www.scootersindialimited.com							
Statement of Audited Results for the Quarter and Year ended on 31.03.2024 (Rs. in Lacs)							
Sl. No.	Particulars	Quarter Ended 31.03.2024 Audited	Quarter Ended 31.12.2023 Unaudited	Quarter Ended 30.09.2023 Unaudited	Quarter Ended 30.06.2023 Unaudited	Year ended 31.03.2024 Audited	Year ended 31.03.2023 Audited
1	Total income from operations (net)	1,348.59	(75.91)	(113.45)	(1,578.76)	-	-
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,348.59	(75.91)	(113.45)	(1,578.76)	(419.53)	76.44
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items#)	1,348.59	(75.91)	(113.45)	(1,578.76)	(419.53)	76.44
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items#)	(1,345.70)	(75.91)	(113.45)	(1,578.76)	(3,113.82)	76.44
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(1,345.70)	(75.91)	(113.45)	(1,578.76)	(3,113.82)	76.44
6	Equity Share Capital	8,727.39	8,727.39	8,727.39	8,727.39	8,727.39	8,727.39
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	Earnings Per Share (before Extraordinary Items) (of Rs 10/- each) for continuing and discontinued operations	(1.54)	(0.09)	(0.13)	(1.81)	(3.57)	0.09
1	Basic	(1.54)	(0.09)	(0.13)	(1.81)	(3.57)	0.09
2	Diluted	(1.54)	(0.09)	(0.13)	(1.81)	(3.57)	0.09

Notes: 1. The above is an extract of detailed format of Quarterly/Yearly Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/half yearly Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and the Company's website (www.scootersindialimited.com). 2. These results have been prepared in accordance with the provisions of Section 133 of the Companies Act, 2013 and other accounting principles generally accepted in India.

By order of the Board
For Scooters India Limited
Navin Kaul
Chairman & Managing Director
DIN - 10604669

Date: 28.05.2024
Place: Lucknow

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

1941 में आरंभ किया "सेन्ट्रल" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1941

प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की मांग सूचना 13(2)

शाखा कार्यालय: खेरी रोड, भारत कालोनी, नहरपार, ओल्ड फरीदाबाद

वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत कर्जदार को मांग सूचना।

यह मांग सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत एतद्वारा कर्जदारों/गारंटियों को उनकी गारंटी में दी गई ऋण सुविधा की बकाया राशि का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए जारी की गई है। यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस सूचना के संदर्भ में नीचे वर्णित राशि और उस पर आगे ब्याज और प्रसंगिक व्यय, लागत आदि का भुगतान करने में असफल रहते हैं तो बैंक कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) और अन्य लागू प्राधान्य के अंतर्गत उसे प्राप्त सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचना दी जाती है कि आप बिना बैंक की लिखित अनुमति लिखे इस सूचना में नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की विकी, पट्टे पर देने या अन्य लेनदेन नहीं कर सकते हैं। बकाया राशि के साथ खाता और प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:

कर्जदार एवं गारंटर का नाम	प्रतिभूत सम्पत्ति का विवरण	13(2) सूचना की तिथि एवं राशि
कर्जदार : श्री आशीष साह पुत्र जय प्रकाश साह	अचल संपत्ति: खसरा नंबर 9 में से संपत्ति नंबर 285 और 286 के हिस्से के 45 वर्ग गज (लगभग 15' x 27') क्षेत्र में छत/टैरेस के अधिकार के साथ निर्मित दूसरी मंजिल, सामान्य अधिकारों के साथ पानी, बिजली और सौचक कनेक्शन से सुसज्जित, उक्त संपत्ति की भूमि के अनुपातिक अधिभाजित, अधिभाजन और निष्पक्ष प्रोबोल्ड अधिकारों के साथ ग्राम विंदपुर और टी-ब्लॉक, कालोनी उद्यम नगर, नई दिल्ली-110059, इसके अलावा: 40 नगर नगर कालोनी, नारायण धर्म कंटा के पास, नांगलौई, नई दिल्ली-110041	दिनांक 13(2) सूचना: 01/05/2024 एनपीए: 30/04/2024 नोटिस की तारीख 01.05.2024 से पूर्ण और अंतिम भुगतान की तारीख तक अनुसूची ए में उल्लिखित लागू ब्याज दर पर अतिरिक्त ब्याज के साथ रु. 10,32,073/- (रुपये दस लाख बत्तीस हजार और तिहत्तर मात्र) आकस्मिक खर्चों, शुल्कों और उस पर लागत के साथ।

आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के समन्वय में सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

दिनांक: 28.05.2024
स्थान: नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी,
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

EPACK Durable Limited

(Formerly Known as EPACK Durable Private Limited and EPACK Durables Solutions Private Limited)

Regd. Office: 61-B, Udyog Vihar, Surajpur, Kasna Road, Greater Noida, Gautam Budh Nagar U.P.201306

CIN: L74999UP2019PLC116048, Website: www.epackdurable.com, Email ID: info_ed@epack.in

Extract of the Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2024											
S. no.	Particulars	Standalone Results					Consolidated Results				
		Quarter ended		Year ended			Quarter ended		Year ended		
		March 31, 2024	December 31, 2023	March 31, 2023	March 31, 2024	March 31, 2023	March 31, 2024	December 31, 2023	March 31, 2023	March 31, 2024	March 31, 2023
		Refer note 2(a)	Unaudited	Refer note 2(b)	Audited	Audited	Refer note 2(b)	Unaudited	Refer note 2(b)	Audited	Audited
1	Total Income from Operations	52,569.96	27,905.51	63,908.06	1,41,955.82	1,53,883.15	52,569.96	27,905.51	63,908.06	1,41,955.82	1,53,883.15
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	3,912.37	701.02	4,783.24	5,067.22	4,640.83	3,856.07	666.86	4,748.13	4,919.97	4,559.68
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,912.37	701.02	4,628.29	5,067.22	4,485.88	3,856.07	666.86	4,593.18	4,919.97	4,404.73
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,824.82	514.80	3,361.21	3,647.53	3,257.97	2,782.69	489.24	3,334.93	3,537.34	3,197.24
5	Total comprehensive income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	2,825.60	508.44	3,355.79	3,626.19	3,236.29	2,783.58	483.12	3,334.97	3,516.29	3,175.32
6	Equity share capital (Face value Rs 10/- per share)	9,579.87	7,840.74	5,208.90	9,579.87	5,208.90	9,579.87	7,840.74	5,208.90	9,579.87	5,208.90
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	79,811.17	24,331.50	-	-	-	79,640.30	24,270.53
8	Earnings per share in Rs (Face value Rs 10/- per share) (Not annualised for the quarter)										
	a) Basic	3.13	0.66	4.95	4.48	4.80	3.08	0.62	4.91	4.35	4.71
	b) Diluted	3.13	0.66	4.49	4.48	4.72	3.08	0.62	4.45	4.35	4.64

Notes:

- The above standalone and consolidated financial results of EPACK Durable Limited (the 'Company' / the 'Holding Company'), and its associate for the quarter and year ended March 31, 2024 have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time and accounting principles generally accepted in India and in compliance with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure requirements) Regulations, 2015, as amended. The above standalone and consolidated financial results for the quarter and year ended March 31, 2024 were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on May 28, 2024.
- a) The standalone and consolidated financial results relating to quarter ended March 31, 2024 are the balancing figures between the audited figures in respect of full financial year ended March 31, 2024 and published figures for nine-months ended December 31, 2023 which were subjected to limited review.
b) The standalone and consolidated financial results relating to the corresponding quarter ended March 31, 2023 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year ended March 31, 2023 and year to date figures upto nine-months ended December 31, 2022 which have been approved by the Board of Directors of the Company but have not been subjected to limited review by the Statutory Auditors.
- The above is an extract of the detailed format of quarter and year ended March 31, 2024 financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure requirements). The full format of the same are available on the Stock Exchanges website www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the company's website www.epackdurable.com

For EPACK Durable Limited
Ajay DD Singhania
(Managing Director and Chief Executive Officer)

Place: Noida
Date: May 28, 2024

PRO CLB GLOBAL LIMITED						
(FORMERLY PROVESTMENT SERVICES LIMITED)						
CIN: L74899DL1994PLC058964						
Regd. Office: 5/34, Third Floor, Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi 110005						
E-mail: deepika@provestment.net/deepika.proclbglobal@gmail.com						
Website: www.proclbglobal.com Contact No.: 91-9582325860						
EXTRACT OF AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2024						
Script Code:540703 (Figures in Lakhs)						
Sl. No.	Particulars	Quarter Ended as on 31/03/2024 (Audited)	Quarter Ended as on 31/12/2023 (Unaudited)	Quarter Ended as on 31/03/2023 (Audited)	Year Ended as on 31/03/2024 (Audited)	Year Ended as on 31/03/2023 (Audited)
1.	Total Income from Operations	46.23	20.95	18.98	100.91	90.67
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exception					